



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

4 जून 2010



खंड 25

संख्या 23

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2009	2010		घट-बढ़	
	29 मई	21 मई	28 मई #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	7,09,364	8,44,477	8,42,693	-1,783	1,33,329
संचलन में नोट	7,09,339	8,44,469	8,42,681	-1,788	1,33,342
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	25	7	12	5	-13
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	101	101	100	-1	—
बाजार स्थिरीकरण योजना	39,890	317	317	—	-39,573
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2,16,462	2,81,003	3,10,326	29,323	93,864
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,028	4,374	4,337	-38	1,309
अन्य बैंक	9,933	14,220	14,321	101	4,387
अन्य	13,055	12,006	12,160	155	-894
अन्य देयताएं	3,79,037	3,23,340	3,06,607	-16,732	-72,429
कुल देयताएं / आस्तियां	13,70,911	14,79,878	14,90,903	11,025	1,19,992
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	11,90,318	11,68,524	11,51,924	-16,600	-38,394
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	45,417	82,377	82,377	—	36,960
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	94,897	1,91,212	2,34,597	43,385	1,39,700
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	6,114	21,655	7,531	-14,124	1,417
राज्य सरकारें	—	—	258	258	258
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	410	—	—	—	-410
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10	—	—	—	-10
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	11,977	28	28	—	-11,949
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	2,750	2,750	2,750	—	—
अन्य आस्तियां	19,018	13,332	11,437	-1,895	-7,581

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइएफएससी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	28 मई 2010 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2010 की समाप्ति पर		दिसंबर 2009 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ रुपए	मिलि. अम. डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	12,61,852	271,970	-16,935	-1,394	2,187	-7,087	-61,383	-11,500	21,411	9,664
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	11,50,761	247,263	-16,589	-1,374*	1,111	-7,422	-56,304	-11,320	-38,375	-4,193
(ख) स्वर्ण \$	82,377	18,537	—	—	1,189	551	-3,010	245	36,960	8,933
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	22,623	4,861	-273	-16	27	-145	-1,505	-308	22,621	4,860
(घ) आइएएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	6,091	1,309	-73	-4	-140	-71	-564	-117	205	64

+ : आइएएमएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया 1164 करोड़ रुपए / 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश छोड़कर।

* : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

@ : इसमें सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) शामिल है, जिन्हें क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।

\$: इसमें 31,463 करोड़ रुपए (6,699 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपये)

मद	21 मई 2010 को बकाया #	पखवाड़े में	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2009-2010	2010-2011	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	61,083	-626	-153	-3,848	6,968	12,380
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	17,767	-3,139	-9,599	-14,590	-6,427	-2,121
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	7,490	7	-2,630	1,512	-4,577	-11,652
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	45,26,220	-4,997	1,30,691	33,394	7,27,370	5,61,420
		(-0.1)	(3.4)	(0.7)	(22.5)	(14.2)
मांग	5,73,356	-4,085	-14,683	-72,254	56,793	64,954
मीयादी	39,52,864	-912	1,45,374	1,05,648	6,70,577	4,96,466
उधार ⁽³⁾	1,15,192	5,355	-9,507	10,914	355	10,763
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,26,172	-1,419	-2,179	-3,248	17,420	20,831
रिजर्व बैंक से उधार	—	—	-9,378	-42	2,184	-2,350
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,07,458	-11,643	-17,795	490	-41,415	66,777
पास में नकदी	26,454	725	5,546	877	6,859	628
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	2,81,003	-12,368	-23,341	-387	-48,274	66,149
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	50,442	-326	-2,421	-11,978	17,086	-46
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	8,927	285	-6,155	-8,741	-2,786	45
बैंकों को अग्रिम	4,801	-1,837	-1,050	-5,091	-1,605	2,948
अन्य आस्तियां	39,444	643	-7,523	-5,019	6,147	-4,754
निवेश⁽⁵⁾	14,44,728	16,585	90,501	59,975	2,34,618	1,87,816
		(1.2)	(7.8)	(4.3)	(23.0)	(14.9)
सरकारी प्रतिभूतियों में	14,38,314	16,460	90,806	59,919	2,37,111	1,91,722
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	6,414	125	-305	56	-2,493	-3,906
बैंक ऋण	32,30,178	2,407	-39,097	-14,610	3,75,245	4,93,726
		(0.1)	(-1.4)	(-0.5)	(15.9)	(18.0)
खाद्य ऋण	49,403	-3,225	11,272	913	3,140	-8,080
खाद्योत्तर ऋण	31,80,776	5,632	-50,369	-15,523	3,72,105	5,01,806
ऋण, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	31,08,787	2,166	-31,027	-13,371	3,83,765	4,64,138
देशी बिल - खरीदे गए	10,582	-336	-1,167	-1,432	-1,623	34
भुनाए गए ⁽⁶⁾	62,856	-139	326	638	1,717	19,373
विदेशी बिल - खरीदे गए	15,931	693	-2,570	-201	-305	-21
भुनाए गए	32,022	24	-4,659	-244	-8,309	10,203
नकद-जमा अनुपात	6.79					
निवेश-जमा अनुपात	31.92					
ऋण-जमा अनुपात	71.37					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुकूपी मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एफ़िज़म बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2009	2010					
	22 मई	16 अप्रैल	23 अप्रैल	30 अप्रैल	7 मई	14 मई	21 मई
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.00	5.75	5.75	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	11.00-12.25	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00
जमा दर ⁽⁴⁾	6.50-8.25	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.50
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	0.50/3.50	2.00/3.90	0.25/3.90	2.20/4.10	2.20/4.50	2.00/4.00	0.30/4.00
- दिये गए उधार	0.50/3.50	2.00/3.90	0.25/3.90	2.20/4.10	2.20/4.50	2.00/4.00	0.30/4.00

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

(करोड़ रुपए)

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

+ : बाजार बंद।
— : पिछले वर्ष के तदनुरूपी दिन बाजार बंद।

भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन
साप्ताहिक सांख्यिकी संपरक

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2010		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
	31 मार्च #	21 मई #	राशि	%	2009-2010		2010-2011		2009		2010	
					राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम₃	55,79,567	56,72,224	8,808	0.2	1,74,686	3.7	92,656	1.7	8,56,033	20.9	7,20,469	14.5
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	7,68,048	8,24,692	10,397	1.3	28,593	4.3	56,643	7.4	92,272	15.3	1,29,822	18.7
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,14,157	6,38,421	-4,525	-0.7	-16,155	-2.8	-75,736	-10.6	60,049	11.9	73,061	12.9
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	40,93,577	42,05,291	2,748	0.1	1,63,098	4.6	1,11,714	2.7	7,05,205	23.7	5,18,488	14.1
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,785	3,820	187	5.2	-851	-15.3	35	0.9	-1,494	-24.0	-902	-19.1
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	16,68,258	17,23,105	15,072	0.9	88,928	7.0	54,847	3.3	4,44,957	48.3	3,56,453	26.1
(क) रिजर्व बैंक	2,20,218	2,12,485	-1,976		-4,305		-7,733		2,01,598		1,55,210	
(ख) अन्य बैंक	14,48,041	15,10,620	17,049	1.1	93,233	7.7	62,579	4.3	2,43,359	22.8	2,01,243	15.4
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	34,83,253	34,71,951	3,641	0.1	-48,005	-1.6	-11,302	-0.3	3,92,661	15.2	4,99,440	16.8
(क) रिजर्व बैंक	1,328	1,328	—	—	-825	—	—	—	11,612	—	-11,667	—
(ख) अन्य बैंक	34,81,925	34,70,623	3,641	0.1	-47,180	-1.6	-11,302	-0.3	3,81,049	14.8	5,11,107	17.3
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	12,75,039	12,93,974	21,169	1.7	-52,070	-3.9	18,935	1.5	-1,08,783	-7.7	-6,140	-0.5
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	10,919	10,919	—	—	157	1.6	—	—	826	8.8	707	6.9
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं	8,57,902	8,27,726	31,075	3.9	-1,85,676	-21.0	-30,176	-3.5	-1,26,371	-15.3	1,29,992	18.6
उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	3,10,301	3,16,810	20,285	6.8	-34,818	-9.0	6,510	2.1	48,536	15.9	-36,299	-10.3

* : 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार सरकारी बकाये खाते बंद होने के पूर्व के हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2010		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
	31 मार्च #	28 मई #	राशि	%	2009-2010		2010-2011		2009		2010	
					राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	11,55,281	11,86,558	27,753	2.4	-32,739	-3.3	31,277	2.7	-1,373	-0.1	2,31,297	24.2
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचालन में करेंसी	7,99,198	8,53,600	-1,788	-0.2	28,398	4.1	54,402	6.8	97,513	15.7	1,34,049	18.6
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	3,52,299	3,28,984	29,386	9.8	-61,851	-21.2	-23,315	-6.6	-98,457	-30.0	99,560	43.4
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	3,785	3,975	155	4.0	715	12.8	189	5.0	-429	-6.4	-2,313	-36.8
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	2,20,218	2,42,180	29,695		-451		21,963		1,61,704		1,81,052	
	2,19,836	2,41,964	29,438		-592		22,128		1,61,704		1,80,794	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से : बैंकों को (नाबार्ड सहित)	2,497	1,328	—		-10,480		-1,169		9,578		-12,369	
	1,169	—	—		-9,937		-1,169		-2,264		-420	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	12,31,949	12,34,284	-16,600	-1.3	-44,399	-3.5	2,336	0.2	-1,01,919	-7.6	-1,433	-0.1
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	10,919	10,919	—	—	157	1.6	—	—	826	8.8	707	6.9
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयता	3,10,301	3,02,153	-14,657	-4.6	-22,435	-5.8	-8,148	-2.6	71,562	24.3	-63,339	-17.3

* : 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार सरकारी बकाये खाते बंद होने के पूर्व के हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ रुपए)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां संख्या	राशि	स्वीकृत बोलियां संख्या	राशि	कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां संख्या	राशि	स्वीकृत बोलियां संख्या	राशि	कट-ऑफ दर (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24 मई 2010	1	—	—	—	—	—	12	4,540	12	4,540	3.75	-4,540	4,540
25 मई 2010	1	—	—	—	—	—	14	8,890	14	8,890	3.75	-8,890	8,890
26 मई 2010	2	—	—	—	—	—	12	5,685	12	5,685	3.75	-5,685	5,685
28 मई 2010	3	—	—	—	—	—	5	2,510	5	2,510	3.75	-2,510	
28 मई 2010 \$	3	—	—	—	—	—	2	3,705	2	3,705	3.75	-3,705	6,215

@ : रिपो को घटाना। \$: द्वितीय एलएफएफ।

'—' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

टिप्पणी : 8 मई 2009 से रिपोर्टिंग शुरुवार को द्वितीय एलएफएफ (एसएलएफएफ) आयोजित किया जा रहा है। एसएलएफ को 28 मई 2010 से 2 जुलाई 2010 तक दैनिक आधार पर पुनः आरम्भ किया गया है।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपए)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीय खजाना बिल													
2009-2010 7 अक्टू. 6 जन.	9 अक्टू. 8 जन.	7,000	92	24,495	—	21	7,000	—	—	7,000	99.20	3.2347	75,500
		7,000	95	14,967	—	67	7,000	—	—	7,000	99.11	3.6835	71,500
2010-2011 7 अप्रैल 26 मई	9 अप्रैल 28 मई	7,000	128	27,842	—	41	7,000	—	—	7,000	99.03	3.9697	71,503
		7,000	92	11,381	—	72	7,000	—	—	7,000	98.80	5.0361	77,500
182-दिवसीय खजाना बिल													
2009-2010 14 अक्टू. 6 जन.	16 अक्टू. 8 जन.	2,000	88	6,155	—	35	2,000	—	—	2,000	98.05	4.0511	20,500
		1,500	74	5,897	—	9	1,500	—	—	1,500	98.02	4.0720	21,500
2010-2011 13 अप्रैल 26 मई	16 अप्रैल 28 मई	2,000	47	3,220	—	35	2,000	—	—	2,000	97.77	4.7212	21,500
		2,000	54	5,570	—	15	2,000	—	—	2,000	97.61	4.9737	21,500
364-दिवसीय खजाना बिल													
2009-2010 7 अक्टू. 13 जन.	9 अक्टू. 15 जन.	2,000	76	6,040	—	27	2,000	—	—	2,000	95.65	4.5932	42,013
		1,000	69	4,503	—	8	1,000	—	—	1,000	95.60	4.6700	41,765
2010-2011 7 अप्रैल 19 मई	9 अप्रैल 21 मई	2,000	67	5,410	25	34	2,000	25	—	2,025	95.22	5.0559	42,522
		2,000	55	5,250	—	12	2,000	—	—	2,000	95.32	4.9343	45,522

टिप्पणियाँ : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतिस्पर्धित बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7 मई	8 मई	9 मई	10 मई	11 मई	12 मई	13 मई	14 मई	15 मई	16 मई	17 मई	18 मई	19 मई	20 मई	21 मई
2010	2,91,875	5,83,751	8,69,753	11,51,646	14,43,145	17,46,129	20,39,508	23,36,203	26,32,897	29,20,342	32,08,041	34,93,572	37,88,158	40,69,315
4 जून	22 मई	23 मई	24 मई	25 मई	26 मई	27 मई	28 मई	29 मई	30 मई	31 मई	1 जून	2 जून	3 जून	4 जून
2010	2,80,420	5,60,841	8,72,454	11,76,428	14,86,276	17,96,493	21,07,821							

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	व्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
10 अप्रैल 2009	1,98,497	12,125	5.90 — 11.50
3 जुलाई 2009	2,28,638	13,913	3.34 — 8.25
9 अक्टूबर 2009	2,25,781	13,373	3.70 — 6.05
1 जनवरी 2010	2,64,246	31,102	3.75 — 6.75
9 अप्रैल 2010	3,41,830	21,791	4.35 — 8.95
23 अप्रैल 2010	3,36,807	20,809	4.15 — 6.90

@ : प्रभावी वार्षिक व्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अप्रैल 2009	46,551	2,918	6.00 — 12.50
15 जुलाई 2009	77,560	12,334	3.04 — 8.85
15 अक्टूबर 2009	91,930	19,066	2.98 — 9.00
15 जनवरी 2010	92,363	11,503	3.15 — 7.55
15 अप्रैल 2010	83,165	12,207	3.85 — 8.40
30 अप्रैल 2010	98,769	21,255	3.97 — 9.40

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास ।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद	भार	2009	2010		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		16 मई	20 मार्च *	15 मई #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य @	100.00	..	..	..	..	..	..	..
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	257.9	293.8	298.9	-0.1	3.1	4.8	15.9
(i) फल और सब्जियां	2.92	272.8	270.9	290.5	-1.5	1.1	10.7	6.5
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकेंट	14.23	326.1	361.8	365.5	0.1	0.1	1.0	12.1
विनिर्मित उत्पाद @	63.75	..	..	..	..	..	..	..
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	..	..	..	..	..	..	..
(ii) खाद्य तेल	2.76	..	..	..	..	..	..	..
(iii) सीमेंट	1.73	..	..	..	..	..	..	..
(iv) लोहा और इस्पात	3.64	..	..	..	..	..	..	..

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ : आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2009	2010				
	28 मई	24 मई	25 मई	26 मई	27 मई	28 मई
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	14296.01	16469.55	16022.48	16387.84	16666.40	16863.06
एसएंडपी सोएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	4337.10	4943.95	4806.75	4917.40	5003.10	5066.55

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	16 अप्रैल 2010	23 अप्रैल 2010	30 अप्रैल 2010	7 मई 2010	14 मई 2010	21 मई 2010	28 मई 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	8,750	6,525	7,928	8,099	8,745	7,085	6,921
ख) दिए गए ऋण	9,572	7,187	9,259	9,654	10,036	7,926	7,823
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	872	662	1,331	1,563	1,291	841	902
ख) दिए गए ऋण	50	—	—	7	—	—	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	9,622	7,187	9,259	9,662	10,036	7,926	7,823
ख) दिए गए ऋण	9,622	7,187	9,259	9,662	10,036	7,926	7,823

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य) @

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	23 अप्रैल 2010	30 अप्रैल 2010	7 मई 2010	14 मई 2010	21 मई 2010	28 मई 2010
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,29,654	1,32,157	1,51,515	1,97,223	1,97,805	1,64,061
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	4,356	4,105	3,260	2,736	3,038	2,582
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	14,747	14,147	11,489	15,084	14,225	9,395
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	2,655	3,282	2,723	1,566	1,996	2,833
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	3,763	3,431	4,656	5,262	1,681	1,746
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	684	48	341	1,201	293	170

@ : रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भार.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिक						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
10 मई 2010	2,128	1,836	1,579	155	1,629	1,500	6,609	6,413	448	6,780	1,338	174
11 मई 2010	1,863	1,141	749	140	1,436	1,344	6,973	4,858	587	5,082	1,241	57
12 मई 2010	1,717	901	589	70	1,543	1,296	7,041	5,086	598	6,194	1,369	94
13 मई 2010	1,756	1,028	1,289	137	1,079	899	7,165	4,977	590	4,931	816	40
14 मई 2010	2,070	1,042	886	99	1,094	925	6,417	5,404	573	5,546	1,068	90
बिक्री												
10 मई 2010	2,329	2,137	1,520	164	1,633	1,530	6,450	6,062	753	6,802	1,628	155
11 मई 2010	1,796	1,324	629	145	1,438	1,396	6,782	5,705	662	5,080	1,503	61
12 मई 2010	1,611	1,602	664	66	1,607	1,385	6,588	5,024	748	6,208	1,643	104
13 मई 2010	2,165	2,053	498	134	1,077	986	6,879	5,421	719	4,919	1,272	48
14 मई 2010	2,239	1,565	470	112	1,145	1,009	6,173	4,780	703	5,542	1,491	97

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिक और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह					
	23 अप्रैल 2010	30 अप्रैल 2010	7 मई 2010	14 मई 2010	21 मई 2010	28 मई 2010
1	2	3	4	5	6	7
राशि	1569.30	1909.40	2011.59	1362.53	1152.12	1339.67

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	28 मई 2010					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	31,219	8,356	21,029	60,603	419	3,025
राज्य सरकारें	81,052	—	—	—	81,052	6,809	-12,974
अन्य	2,258	46,281	13,144	24,494	86,177	1,623	7,535

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार : 2010-2011

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2010-2011 (28 मई 2010 तक)	2009-2010 (29 मई 2009 तक)	2009-2010	2010-2011 (28 मई 2010 तक)	2009-2010 (29 मई 2009 तक)	2009-2010
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल	89,000	1,30,000 @	4,51,000 \$	64,544	1,01,911 @	3,98,411 \$
2. भारिबैंके खुला बाजार परिचालन* बिक्री खरीद	1,607 1,617	953 36,504	9,931 85,400			

\$: इस में एमएसएस डीसिक्वेस्टेरिंग के 33,000 करोड़ रुपए शामिल है।

@ : इस में एमएसएस डीसिक्वेस्टेरिंग के 28,000 करोड़ रुपए शामिल है।

* : भारिबैंके के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)®

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	21 मई 2010 को समाप्त सप्ताह			28 मई 2010 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2010-11	2.384	3.6572	5.6324	190	4.2246	5.0000
2011-12	1.011	5.0304	6.1200	575	5.0735	6.2300
2012-13	4.216	5.7676	6.3691	1,929	5.8234	6.0670
2013-14	1.877	6.4107	6.8564	1,044	6.4744	6.8420
2014-15	1.576	6.8650	7.0835	1,192	6.8638	7.1218
2015-16	3.030	7.1803	7.3780	1,026	7.1799	7.3086
2016-19	10.609	7.3471	7.8201	6,854	7.3250	8.1161
2019-20	1.488	7.7005	7.8945	407	4.7239	7.7940
2020 से आगे	72.711	7.3839	8.2805	68,814	7.3188	8.1690
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1.519	5.9561	8.2902	1,291	6.9500	8.1800
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	684	3.5500	4.1500	1,102	3.5500	5.1000
ख) 15 - 91 दिन	6,523	3.6498	4.3001	5,121	4.0999	5.2500
ग) 92 - 182 दिन	1,008	4.1100	4.6501	1,345	4.4196	5.0501
घ) 183 - 364 दिन	735	4.6201	4.9343	373	4.8501	5.1500
II. भा.रि.बैं. * : बिक्री	148			84		
: खरीद	145			86+		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	94,995	1.00 (1)	3.80 (3)	62,377	2.50 (1)	5.15 (3)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	208	3.40 (1)	3.65 (3)	148	3.80 (1)	3.96 (2)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	4,866	2.50 (1)	3.80 (3)	6,507	3.25 (1)	5.10 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	4,840	1.25 (1)	3.75 (3)	1,515	3.95 (1)	5.00 (1)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	9,225	3.35 (1)	3.85 (3)	10,850	3.86 (1)	4.85 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रिपो * ^	—	—	—	—	—	—
: रिवर्स रिपो !	2,13,895	—	3.75	25,330	—	3.75

@ : भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* : भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** : न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* : कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ : इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कंपनियों की शून्य राशी (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बॉण्ड (तेल बॉण्ड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।
साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अर्न्तम

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः 800 रुपए और 2,000 रुपए तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी डॉलर और 125 अमरीकी डॉलर है।

श्रीमती गुणजीत कौर द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 से प्रकाशित, संपादक श्रीमती गुणजीत कौर।